

जय सिया राम

जय सिया राम जय जय सिया राम...

बिनु सतसंग बिबेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
सतसंगत मुद मंगल मूला,
सोइ फल सिधि सब साधन फूला.....

मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी.....

आत्माधारं स्वतन्त्रं च सर्वशक्तिं विचिन्त्य च,
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामःशरणं मम ॥

एक अनीह अरूप अनामा,
अज सच्चिदानंद पर धामा,
ब्यापक बिस्वरूप भगवाना,
तेहिं धरि देह चरित कृत नाना.....

नित्यात्म गुण संयुक्तो नित्यात्मतनुमण्डितः,
नित्यात्मकेलिनिरतः श्रीरामःशरणं मम ॥

बंदउँ नाम राम रघुवर को,
हेतु कृसानु भानु हिमकर को,
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो,
अगुन अनूपम गुन निधान सो.....

गुणलीलास्वरूपैश्च मितिर्यस्य न विद्यते,
अतोवाङ्मनसा वेद्यः श्रीरामःशरणं मम ॥

नाम रूप गति अकथ कहानी,
समुझत सुखद न परति बखानी,
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी,
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी.....

नित्यमुक्तजनैर्जुष्टो निविष्टः परमे पदे,
पदं परमभक्तानां श्रीरामः शरणं मम ॥

रूप बिसेष नाम बिनु जानें,
करतल गत न परहिं पहिचानें,
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें,
आवत हृदय सनेह बिसेषें.....

कर्ता सर्वस्य जगतो भर्ता सर्वस्य सर्वगः,
आहर्ता कार्यं जातस्य श्रीरामःशरणं मम ॥

नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी,
बिरति बिरंछि प्रपंच बियोगी,
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा,
अकथ अनामय नाम न रूपा.....

ऋषिरूपेण यो देवो वन्यवृत्तिमपालयत्,
योऽन्तरात्मा च सर्वेषां श्रीरामःशरणं मम ॥

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/27723/title/jai-siya-ram>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |